

CORDS CABLE INDUSTRIES LTD.

REGD. OFFICE: 94, 1st Floor, Shambhu Dayal Bagh Marg, Near Okhla Industrial Area Phase-III,

Old Ishwar Nagar, New Delhi - 110020

Tel: +91-11-40551200; Fax: +91-11-40551281 Website: www.cordscable.com; Email: ccil@cordscable.com

CIN: L74999DL1991PLC046092

Date: 24.06.2020

Listing Department (Compliance Cell),

National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza,

Plot no. C/1, G Block,

Bandra Kurla Complex,

Bandra (E),

Mumbai- 400 051

Listing Department (Compliance Cell),

Bombay Stock Exchange Ltd.

Floor 25, PJ Towers,

Dalal Street,

Mumbai- 400 001

Sub.: Newspaper Publication regarding Intimation of Board Meeting

Dear Sir/Madam,

Pursuant to the provisions of Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copy of newspaper publication regarding intimation of board meeting to consider, discuss and approve inter alia, The Audited Financial Results along with Auditors Report & Cash Flow Statement by the statutory auditors of the company for the Fourth Quarter / Financial Year ended on March 31, 2020.

Kindly take the same on records.

Thanking you.

Yours faithfully,

For Cords CABLE INDUSTRIES LIMITED

Company Secretary

Company Secretary

Works:

(UNIT I): A-525, E-518, 519, 520, Industrial Area Chopanki, Bhiwadi, Distt. Alwar - 301707 (Rajasthan) Tel. No.: +91-7230003177 (UNIT II): SP-239, 240, 241, Industrial Area Kaharani, Bhiwadi, Distt. Alwar - 301019 (Rajasthan) Tel. No.: +91-7230003176

US VISA MOVE

FINANCIAL EXPRESS

'India may see limited impact'

Many in India expect the Trump admin to issue less number of visas due to growing unemployment in the US, says official

BANIKINKAR PATTANAYAK New Delhi, June 23

THE US MOVE to suspend the issuance of new non-immigrant visas, especially for skilled professionals, until December 31 will likely have limited impact on India, an official source told *FE*. But the government will initiate all possible steps to ensure that the visa system gets reinstated and the mobility of In-

failure has been attributed to the

poor quality of seeds and the lack

of requisite moisture in the soil.

2. Notice Calling EGM

www.nseindia.com respectively.

Manner of Attending the EGM

where the EVSN of Company will be displayed.

4. Manner of casting votes(s) through Evoting:

NANDA KASABE

Pune, June 23



world doesn't get hampered, he said.

The US issues around 85,000 H-1B visas for skilled workers every year, of which Indians — mainly IT professionals — get an average of about 60,000, or roughly 70% of all such permits. Since the current restriction is for six months, the number of applicants for visas that could be hit in the best case would be 30,000.

However, because of a growing local unemployment and a likely massive GDP contraction in the US in the wake of the

Covid-19 outbreak, many in India were, in any case, expecting the Trump administration to issue only about 5,000-10,000 visas, the official source said. So the Presidential proclamation would hit the prospect of those many visas. Moreover, the move doesn't alter the fate of the 3,00,000 H1-Bvisa holders from India already working there.

However, if the US extends the period of suspension and retains the curbs for a much longer period even when its economy rebounds, Indian industry — especially IT — will be hit, analysts say.

The Trump administration has temporarily suspended non-immigrant visas like H-1B, H-2B, L-1A, L-1B, J-1 and dependents. Individuals receiving these visas, or seeking entry into the US for the first time between June 24 and December 31,2020, won't be allowed.

According to a CII survey released earlier this month, 155 Indian-origin companies have investments over \$22 billion in the US and have created about 125,000 jobs. The survey also pointed at Indian investments having crossed \$100 million each in 20 American states. It also said over the next five years, 77% of companies intend to raise their investments in the US, while 83% plan to hire more local employees.

However, US President Donald Trump has repeatedly asked foreign firms based out of the US to hire more local workers, rather than outsourcing jobs to cheaper economies. In 2017, Trump signed the 'Buy American and Hire American' executive order to create higher employment for Americans.

Maha soyabean farmers worried as seeds fail to germinate

Senior officials of the quality control unit of the state agriculture department confirmed that they have been receiving reports **SOYABEAN FARMERS IN Maha**of seed failure from farmers rashtra are a worried lot, with refrom certain pockets. Vijay ports of seed-germination fail-Ghawate, director of agriculture, ure across soyabean-growing regions in the state. The seed

(CIN L65910DL1989PLC034812)

Regd. Office: 4th Floor, Tower 1, NBCC Plaza, Sector V, Pushp Vihar,

Saket, New Delhi-110 017, Phone: 011-29561180 Fax: 011-29561171 Email: complianceofficer@tfciltd.com, Website: www.tfciltd.com

INFORMATION REGARDING EXTRA-ORDINARY

GENERAL MEETING (EGM)

1. Extra-Ordinary General Meeting (EGM) of the Company will be held

on Friday, the 3rd day of July, 2020 at 11.00 a.m., through Video

Conferencing (VC)/other Audio Visual Means (OAVM) in compliance

with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with MCA

General Circulars No. 14/2020 and 17/2020 dated 8th April, 2020 and 13th

April, 2020 respectively to transacted business as contained in the

Notice calling EGM. Members will be able to attend the EGM through

VC/OAVM or view the live webcast through the Central Depository

Services (India) Limited (CDSL) system at www.evotingindia.com.

In terms of relevant Circulars, Notice calling EGM has been sent through

electronic mode only to those Members whose e-mail IDs are registered

with the Company/Registrar & Share Transfer Agent (R&STA)/

Depository Participant(s). Hence, no physical copy of the EGM Notice

has been dispatched. The Notice calling EGM is available on

the website of the Company at www.tfciltd.com, of CDSL at

www.evotingindia.com, being the agency appointed for providing remote

e-voting facility, of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National

Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and

Members may join the EGM through VC/OAVM 15 minutes before the

scheduled time of the commencement of the Meeting through the

CDSL e-Voting system at https://www.evotingindia.com under

shareholders/members login by using the remote e-voting credentials.

The link for VC/OAVM will be available in shareholder/members login

The Company is providing its Members facility to cast their vote by

electronic voting system from a place other than the venue of the meeting

(remote e-voting) on the resolution placed before the shareholders at the EGM. The remote e-voting period begins on Tuesday, June 30, 2020 at 9.00 a.m. (IST) and ends Thursday, July 2, 2020 at 5.00 p.m. (IST). The remote e-voting module shall be disabled by CDSL thereafter.

Remote e-voting shall not be allowed beyond the above mentioned date

and time. Members who have casted their votes through remote e-voting

may attend the EGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote their again. Only those Members/shareholders who will be

present in the EGM through VC/OAVM facility and have not

casted their vote on the Resolutions through Remote E-Voting and are

otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through

E-Voting system in the EGM. Shareholders may access the same at

https://www.evotingindia.com under shareholders/members login by

using the remote e-voting credentials. Kindly refer to the EGM Notice for

detail instructions for remote e-voting and e-voting at EGM. The cut-off date for membership purposes for the purpose of e-voting eligibility has

been fixed as Friday, June 26, 2020. A person whose name is recorded

in the register of member or in the register of beneficial owners

maintained by the Depositories as on the cut-off date only shall be

Members holding shares in physical form or those who have not

registered their e-mail ID with the Company can cast their vote through remote e-voting or through e-voting system during the Meeting by

registering their e-mail ID and applying to the Company for attending

the EGM. Detailed instructions are provided in the EGM Notice.

Those shareholders whose e-mail IDs are not registered can register

their e-mail ID with R&STA at admin@mcsregistrars.com;

helpdeskdelhi@mcsregistrars.com by providing their name registered

as per the records of the Company, address, E-mail ID, PAN, DP

In case of any query / grievance(s) connected with the electronic voting,

members may contact Mr. Rakesh Dalvi, Manager, CDSL at

For Tourism Finance Corporation of India Ltd.

Sanjay Ahuja

Company Secretary

ID/Client ID or Folio Number and Number of shares held by them.

helpdesk.evoting@cdslindia.com or call 1800225533.

Place: New Delhi

Date: June 23, 2020

entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting in the EGM.

5. Manner of Registering/updating email address:

Physical attendance of the Members is not required at the EGM venue.

TOURISM FINANCE CORPORATION OF INDIA LIMITED यूनियन वैंक Union Bank

quality control, Maharashtra, stated that the government is in failure has happened because of the process of verifying reports seed quality, the companies are of complaints from farmers. asked to grant compensation to

Committees have been formed at district levels to verify if this has happened because of the seed quality or other factors related to the monsoon. The government has also referred the problem to agriculture universities, he said. If it is proved that the germination the farmers, he said.

Soyabean is cultivated on nearly 40 lakh hectare in the state. Ghawate agreed that there has been a shortage of soyabean seeds this season, since the crop was destroyed due to the extended monsoon the previous season. There has been a shortage of seeds from Mahabeej Corporation, he said.

Dandia Bazar Branch

(Erstwhile - Corporation Bank)

Dandia Bazar, Vadodara - 390001

Tel: 0265 - 2432999, 2432998, Email: cb0155@unionbankofindia.com

[See Rule 8(1)] POSSESSION NOTICE (For Immovable Property)

Whereas, The undersigned being the Authorised Officer of Union Bank Of India

(Erstwhile - Corporation Bank) under the Securitisation and Reconstruction of

Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) and in

exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security

Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated 16.01.2020

calling upon the borrower M/s. Dev Enterprises, Prop. Mistry Vipulbhai

Hasmukhbhai (Borrower), FF - 7, Sanket Heights, Sun Pharma Road, Atladara,

Vadodara, Mrs. Kalpanaben Vipulbhai Mistry, Extension 3 C-1/6, Samrajva, Nr.

Akota, Muimahuda, Vadodara to repay the amount mentioned in the notice being Rs.

9,80,006/- (Rupees Nine Lakhs Eighty Thousand Six Only) + interest thereon and

the borrower and the public in general that undersigned has taken possession of the

property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under

sub-Section (4) of section 13 of the said Act read with rule 8 of the Security Interest

to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the

charge of the Union Bank Of India (Erstwhile - Corporation Bank), Dandia Bazar

Branch for an amount Rs. 9,80,006/- + Interest thereon and other Charge thereon

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

All that Super built up area admeasuring 533 Sq. ft. or there about designed as

Shop No. FF - 7 on First Floor of "Sanket Heights", Atladara, Vadodara lying being

and situated on the Land bearing Revenue Survey No. 430, Survey No. 1293 being

F.P. No. 77 in Town Planning scheme No. 20 of Village Mouje - Atladara, Taluka and

District - Vadodara. Bounded by :- North : by 30 Mts. Wide Road, South : by

Union Bank Of India (Erstwhile - Corporation Bank)

Enforcement Act rule 2002, on this the 20th day of June of the year 2020.

13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Parking, East: by Shop No. FF-8, West: by Shop No. FF-6.

The Borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to

The Borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not

The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of Section

other Chargers thereon within 60 days from the said notice.

Ground Floor, Pratik Chambers,

of Maharashtra, especially farflung districts. Though these districts have so far reported a lower reporting higher mortality rates. Jalgaon, Solapur and Dhule districts are reporting mortality rates of around 9% and could be among the highest in the country. The Maharashtra govern-

More than 10.80 lakh mi-

Covid-19 deaths spread beyond Mumbai, Pune; hit interior Maharashtra

GEETA NAIR Pune, June 23

THE HIGH INCIDENCE of Covid-19 cases in Mumbai and Pune has led to the Maharashtra government focusing attention here for the last three months. The state government will be stretched further in the coming days, with worrying developments in other parts number of positive cases, they are

ment has maintained that the pandemic has been an urban phenomenon, with more than 90% of the 1,35,796 cases reported in the top 10 municipal corporation areas of the state. The state has reported total deaths at 6,283. But there has been a lot of labour movement from industrial centres to other parts of Maharashtra post-lockdown, and the virus seems to have travelled with them to these parts, spreading the disease.

grant labourers have returned to eight districts of the state over the last three months. Around 2.5 lakh people have returned to Beed

KOTIA ENTERPRISES LIMITED

Registered Office: 905, New Delhi House, 27,

Barakhamba Road, New Delhi - 110001

Tel:- 91-11 -40045955

Email: compliance@kotiaenterprises.com,

Website: www.kotiaenterprises.com

ursuant to Regulation 29 of Securities and

Exchange Board of India (Listing Obligations and

Disclosure Requirements) Regulations, 2015,

Notice is hereby given that meeting of Board of

Directors of M/s Kotia Enterprises Limited, will be

held on Tuesday, 30° June, 2020, at registered

office of the Company to consider and approve

Standalone Audited Financial Results for the

Pursuant to SEBI (Prohibition of insider Trading)

Regulations, 2015, for trading in Securities of the

Company, the trading window for dealing in

securities of the Company by insiders has been

closed with effect from June, 24th, 2020 and

For Kotia Enterprises Limited

Ankit Agarwal

DIN: 05254327

Managing Director

remain closed till July, 02nd, 2020.

02.07.2020, Time: 2.00 PM.

Place: New Delhi

Date: 23.06.2020

guarter and Year ended 31st March, 2020.



district, 2 lakh to Aurangabad, 1.5 lakh to Nanded, 1.43 lakh to Latur, 1.18 lakh to Osmanabad, 1 lakh to Parbhani, 65,000 to Hingoli and 60,000 to Jalna.

While Maharashtra has a death rate, or case fatality ratio (CFR), of 4.62% as on June 23, in Solapur, Jalgaon, Dhule and Wardha, the CFR is much higher. CFR is the ratio of deaths to the total number of infections. According to CPC Analytics, which has tracked data from April 6 to June 22 across the districts of Maharashtra, Solapur had a CFR of 8.1%, Jalgaon has a CFR of 7.8%, Dhule was at 9.6,%, Amravati was at 6.1%, Latur at 6.6%, Nandurbar at 6%, Washim at 5.6%, Wardha at 7.1%, Aurangabd at 5.2%, and Nashik at 5.3 %.

POWER MECH

PROJECTS LIMITED

Reg Off: Plot No. 77,

Jubilee Enclave, Opposite Hite Madhapur, Hyderabad - 500 081, Telangana

Ph: 040 30444418, Fax: 040 30444400

∟ mail: cs@powermech.net,

Website: www.powermechprojects.ir

CIN: L74140TG1999PLC032156

NOTICE OF THE BOARD MEETING

Notice is hereby given that pursuant to

Regulation 29 of the SEBI Listing

Regulations, 2015, a meeting of Board of

Directors of the Company is scheduled to

be held on Saturday, 27th June, 2020 at the

registered office of the Company, inter-alia

to transact the following items of business:

1. To consider and approve audited

standalone financial results of the Company

for the fourth quarter and year ended

2. To consider and approve audited

consolidated financial results of the

Company and its subsidiaries for the fourth

quarter and year ended 31st March, 2020.

3. To recommend final dividend, if any, for

For Power Mech Projects Limited

Chairman & Managing Director

Sd/- S Kishore Babu

31st March, 2020.

the FY 2019-20.

Date: 23-06-2020

Place: Hyderabad

बीईएमएल लिमिटेड BEML LIMITED 🚓

(भारत सरकार उपक्रम) (A Govt. of India Undertaking)

EXTENSION OF DATE FOR

EXPRESSION OF INTEREST

BEML had invited 'Expression of Interest' for Manufacturing partnerships under

the 'Make in India' policy for Atmanirbharta (self-reliance) for its Business

Closing date for proposal submission extended from 22.06.2020 to

For details visit BEML website (https://www.bemlindia.in/viewtender.aspx)

verticals; Defence & Aerospace, Mining & Construction and Rail & Metro.

and refer Eol Ref. CPC/VDS/JV/MII/2020-21 Dated: 06.05.2020.

Accordingly, MSAMB offi-

Mango consignment, the first this season, exported to Japan by air


NANDA KASABE Pune, June 23

NEARLY 3.5 TONNE of mangoes — the first consignment of the fruit this season — was sent to Japan by air from Mumbai on Monday. Last season, around 40 tonne of mangoes were exported to that country.

The consignment that was sent to Japan underwent vapour heat treatment at Maharashtra State Agriculture Marketing Board's (MSAMB) vapour heat treatment plant at Vashi, a norm that is mandatory for mango exports to the country, senior officials of MSAMB stated.

Japan has been importing mangoes from Indian since 2006 and sends inspectors to oversee the vapour heat treatment process. However, this year because of the Covid-19 outbreak, the inspectors could not be sent to Mumbai. Instead, the Japanese government permitted the Directorate of Plant Protection, Quarantine & Storage to oversee the necessary procedures, said Sunil Pawar, MD, MSAMB.

cials completed the vapour heat treatment process for the man-



goes, he added.

The consignment to Japan was sent by three exporters including Sai Export, Beridell Foodsoff and GuruKripa Corpo ration. Pawar said that although the vapour heat treatment facil ity was functional, no interna tional flights were available to Japan and therefore there was delay in exports this season.

Officials said around 11,760 tonne of mangoes were exported to the Middle East, Saudi Arabia UK, US and Germany until May end from India. Last year same time, exports had touched 22,892 tonne. According to APEDA (Agricultural and **Processed Food Products Export** Development Authority), India exported 46,510.27 tonne of mangoes, worth ₹406.45 crore, in the 2018-19 fiscal year.

KAVITA FABRICS LIMITED

Regd. Off.: 105, Balaji Industrial Society-1, Udhna Magdalla Road, Surat 395007 Tel.: +91-261-3018759 Fax No.: +91 - 261- 3018759 E-Mail ID.: info@kavitafabrics.com Website: www.kavitafabrics.com CIN: L34100GJ2005PLC046929

Notice is hereby given that pursuant to the Regulation 29 read with Regulation 47 of the of Securitie and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday June 30, 2020 at 3.00 p.m.inter alia, consider and approve the following agendas:-

To approve the Audited financial results and Financial Statements for the quarter and year ended

31" March 2020 along with the Auditor Report. To appoint Internal Auditors for the Financial Year 2020-2021

To approve Disclosure of Interest of all Directors To consider Related Party Transaction To review working of the Company.

To authorize the directors of the company to sign the E-forms required to be filed with ROC.

The said information is also available on the website of the company at www.kavitafabrics.com and may also be available on Stock Exchange at www.bseindia.com.

> For Kavita Fabrics Limited Rakesh Narayan Todkari

Place: Surat Company Secretary and Compliance Officer Dated: June 23, 2020 Mem No.: A40766 [™] CORDS CABLE INDUSTRIES LIMITED

Regd. Off.: 94, 1st Floor, Shambhu Dayal Bagh Marg, Near Okhla Industrial Area Phase-III. Old Ishwar Nagar, New Delhi-20, Tel: 011-40551200 *Fax No.011-40551281 *Website: www.cordscable.com *E-mail: ccil@cordscable.com *CIN L74999DL1991PLC046092

NOTICE

Notice is hereby given, pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that 192nd meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Saturday, June 27, 2020 at 12:00 noon onwards at the registered office of the company to consider and approve, inter alia, The Audited Financial Results along with Auditors Report and Cash Flow Statement for the Fourth Quarter/Financial Year ended on March 31, 2020.

The above information is also available on the website of the company viz. (www.cordscable.com) and the websites of the Stock Exchanges where Company's shares are listed viz. (www.bseindia.com) and (www.nseindia.com).

Further it is notified that, the window for trading in the Securities of the Company has already been closed from April 01, 2020 and will re-open 48 hours after the submission of outcome of the Board Meeting on June 27, 2020 to the stock exchange for the Directors, Designated Employees, Insiders and their immediate relatives as per the Insider Trading Code of the Company.

> By order of the Board of Directors For Cords Cable Industries Limited

Garima Pant

Place: New Delhi **Dated: June 23, 2020**

Company Secretary

AICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND

Date: 20.06.2020

Place : Vadodara

ICICI Prudential Asset Management Company Limited Corporate Identity Number: U99999DL1993PLC054135

Authorised Officer,

Registered Office: 12th Floor, Narain Manzil, 23, Barakhamba Road, New Delhi - 110 001. Corporate Office: One BKC, 13th Floor, Bandra Kurla Complex, Mumbai - 400 051. Tel.: +91 22 2652 5000, Fax: +91 22 2652 8100, Website: www.iciciprumf.com,

Email id: enquiry@icicipruamc.com Central Service Office: 2nd Floor, Block B-2, Nirlon Knowledge Park, Western Express Highway, Goregaon (E), Mumbai - 400 063. Tel.: 022 2685 2000 Fax: 022 26868313

Notice-cum-Addendum to the Scheme Information Document (SID)/Key Information Memorandum (KIM) of the Schemes of ICICI Prudential Mutual Fund (the Fund) Change in address of the Official Point of Acceptance of Transactions (OPAT) of Computer Age Management Services Limited (CAMS)

the Registrar and Transfer Agent of the Fund:

Investors/unit holders are requested to note the change in address the OPAT of CAMS,

Old Address	New Address	Effective Date
CAMS SERVICE CENTRE, 1st Floor, Canara Bank Building, Dhundhi Katra, Mirzapur - 231001, State: Uttar Pradesh Contact No. 05442 - 220282 Email id: camsmpr@camsonline.com	CAMS SERVICE CENTRE, Ground Floor, Canara Bank Building, Dhundhi Katra, Mirzapur - 231001 State: Uttar Pradesh Contact No. 05442 - 220282 Email id: camsmpr@camsonline.com	July 1, 2020

This Notice-cum-addendum forms an integral part of the SID and KIM of the Schemes of the Fund, as amended from time to time.

All other provisions of the SID and KIM except as specifically modified herein above remain unchanged.

CORRIGENDUM

Corrigendum to Notice no. 005/06/2020 dated June 16, 2020. With reference to the aforesaid notice, the investors are requested to note that the

Date: June 23, 2020

new address of the Official Point of Acceptance of Transactions (OPAT) of the AMC shall be read as SCO-30, Ground Floor, Ranjit Avenue, B Block, Amritsar - 143008, State: Punjab.

All the other provisions of the aforesaid Notice remains unchanged.

For ICICI Prudential Asset Management Company Limited Place: Mumbai

Authorised Signatory

No. 007/06/2020 To know more, call 1800 222 999/1800 200 6666 or visit www.iciciprumf.com As part of the Go Green Initiative, investors are encouraged to register/update their e-mail id

To increase awareness about Mutual Funds, we regularly conduct Investor Awareness Programs across the country. To know more about it, please visit https://www.iciciprumf.com or visit AMFI's website https://www.amfiindia.com

and mobile number to support paper-less communications.

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.



AAVAS FINANCIERS LIMITED CIN: L65922RJ2011PLC034297

Regd. & Corp. Office: 201-202, 2nd Floor, Southend Square, Mansarovar Industrial Area, Jaipur 302 020, Rajasthan, India Tel: +91 14 1661 8800 Fax: +91 14 1661 8861 E-mail: investorrelations@aavas.in | Website: www.aavas.in

10[™] ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD OVER

VIDEO CONFERENCE, RECORD DATE AND OTHER INFORMATION NOTICE is hereby given that the Tenth Annual General Meeting ("AGM") of the Members of

Aavas Financiers Limited ("Company") will be held on Wednesday, July 22, 2020 at 03:30 P.M. (IST) through Video Conference ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business as set forth in the Notice of the AGM. The AGM will be held only through VC/OAVM in compliance with the Companies Act, 2013 ("the

Act") and circulars dated May 5, 2020, April 8, 2020 and April 13, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA Circulars) and the circular dated May 12, 2020 issued by Securities and Exchange Board of India. Members attending the Meeting through VC/ OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act. Facility for appointment of proxy will not be available for the AGM. The instructions for joining the AGM electronically would be provided in the Notice of the AGM. The Notice of the AGM along with the Annual Report 2019-20 is being sent only through electronic

mode to those Members whose email address are registered with the Company/Depositories and who are holding shares as on the record date fixed by the Company i.e. Friday, June 26, 2020. Members may note that the Notice of the AGM and the Annual Report 2019-20 will also be available on the Company's website at https://www.aavas.in/investor-relations/annual-reports, website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Ltd. at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.evoting.nsdl.com, no physical copies will be dispatched to the Members. In terms of MCA circulars, the businesses as stated in the Notice of AGM can be transacted through

voting by electronic means only. The remote e-voting period will commence on Saturday, July 18, 2020 at 9:00 A.M. (IST) and will end on Tuesday, July 21, 2020 at 5:00 P.M. (IST) for casting votes on all the business items as set out in the Notice of the AGM. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter. Any person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficiary owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. Wednesday, July 15, 2020 only shall be entitled to cast their vote. The facility for e-voting shall also be made available at the time of AGM. The Members who have cast their vote by remote e-voting may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. The Detailed procedure for remote e-voting and voting at AGM would be provided in the notice of AGM.

If member has not registered their email address with the Company/ Depository Participant ("DP") may please contact their respective DP and get the same registered or any person who acquires shares of the Company and becomes Member of the Company after dispatch of AGM Notice and is holding shares as on the cut-off date i.e. Wednesday, July 15, 2020, may obtain Notice of AGM along with Annual Report for the year 2019-20 and login details for joining AGM through VC/OAVM facility including e-voting details (user ID and password) by sending their request to evoting@nsdl.co.in or call on toll free no.: 1800-222-990 or contact Mr. Amit Vishal, Senior Manager or Ms. Pallavi Mhatre, Manager, National Securities Depository Ltd., Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai – 400 013, at the designated email IDs: evoting@nsdl.co.in or AmitV@nsdl.co.in or pallavid@nsdl.co.in or at telephone nos.: +91-22-24994360 or +91-99202 64780 or +91-22-24994545 who will also address the grievances connected with the voting by electronic means. Members may also write to the Company Secretary at the Company's e-mail address investorrelations@aavas.in.

Place: Jaipur Date: June 23, 2020

For AAVAS FINANCIERS LIMITED Sd/-Sharad Pathak Company Secretary and Compliance Officer

Advt.No.1/2020 financiale

Careers INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY KANPUR

IIT Kanpur is an Institute of national importance declared as such under the Institutes of Technology Act, 1961, to provide for education and research in various branches of engineering, technology, science and arts. The Institute invites online applications for various posts, from eligible Indian nationals for appointment on regular basis. For detailed advertisement, please visit the Institute's website www.iitk.ac.in/infocell/recruitment.

Interested candidates can apply through ONLINE mode only latest by 05:00 PM of July 12, 2020.

Registrar

भारत-चीन सीमा पर तनाव कम करने पर सहमति से सूचकांक 519 अंक उछला

मुंबई, 23 जून (भाषा)।

चौथे कारोबारी दिवस में तेजी रही। सूचकांक और निफ्टी में 1.5 फीसद से अधिक की मजबूती रही। भारत और चीन की सेनाओं के बीच सीमा पर तनाव कम करने पर सहमति की रिपोर्ट का बाजार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा।

तीस शेयरों पर आधारित बंबई शेयर बाजार का सूचकांक 519.11 अंक यानी 1.49 फीसद की छलांग लगाकर 35,430.43 अंक पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 159.80 अंक यानी 1.55 फीसद मजबूत होकर 10.471 पर बंद हुआ। सचकांक के शेयरों में सर्वाधिक लाभ में एलएंडटी रहा। कंपनी का शेयर करीब सात फीसद मजबूत हुआ। इसके अलावा बजाज फाइनेंस, इंडसइंड बैंक, एनटीपीसी, पावरग्रिड, महिंद्रा एंड महिंद्रा और

एक्सिस बैंक में भी अच्छी बढत दर्ज की गई। दसरी तरफ रिलायंस इंडस्टीज, भारती एअरटेल और मारुति के शेयर नकसान में रहे।

प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि बाजार में नकदी प्रवाह बने रहने के बीच वैश्विक शेयर बाजारों के अनुरूप घरेलू शेयर बाजारों में तेजी रही। उन्होंने कहा कि भारत और चीनी सेना के बीच सीमा पर तनाव कम करने को लेकर सहमति बनने और कोविड-19 के बढते मामलों के बावजूद ठीक होने वालों की दर बढ़ने की खबरों से बाजार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा।

सरकारी सूत्रों के अनुसार भारत और चीन के शीर्ष सैन्य कमांडरों के बीच सोमवार को हुई बैठक के दौरान दोनों देशों की सेनाएं पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले सभी स्थानों से हटने पर सहमत हुई हैं। सूत्रों ने कहा कि यह बातचीत

बदलाव से पहले अपने उत्पादों को मंच पर पंजीकृत

कर चुके हैं, उन्हें समय-समय पर याद दिलाया जाएगा

कि वह उत्पादों के 'उत्पादन का देश' अंकित करें या

उन्होंने कहा कि इन नए फीचरों में कंट्री ऑफ

ऑरिजिन के साथ-साथ उत्पादों पर स्थानीय

मुल्यवर्द्धन का फीसद भी अंकित होगा। मंच पर 'मेक

इन इंडिया' फिल्टर भी लगाया गया है जो खरीदारों को

भारतीय उत्पादों के चयन में मदद करेगा। खरीदार चाहे

तो केवल उन उत्पादों की खरीद कर सकता है जिसमें

न्यूनतम 50 फीसद स्थानीय मूल्यवर्द्धन हो। कुमार ने

उनके उत्पाद को मंच से हटा दिया जाएगा।

सौहार्दपुर्ण, सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में हुई और यह निर्णय लिया गया कि दोनों पक्ष पर्वी लद्दाख में टकराव वाले सभी स्थानों से

आंकड़ों के अनुसार शुद्ध आधार पर विदेशी संस्थागत निवेशकों ने सोमवार को पंजी बाजार में 424.21 करोड़ रुपए मूल्य के शेयर खरीदे। भाव 1.37 फीसद बढकर 43.67 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया।

NATIONAL GENERAL INDUSTRIES LTD. 3rd Floor, Surya Plaza, K-185/1, Sarai Julena, New Friends Colony, New Delhi - 110025

NOTICE NOTICE is hereby given that pursuant to clause 29 of the SEBI (LODR), Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, the 30th day of June, 2020 at the Registered Office of the Company, inter-alia, to approve and take on record the audited financial results for the quarter and year ended on 31 st March, 2020.

By order of the Board For National General Industries Ltd.

Place: New Delhi Vandana Gupta Date: 23.06.2020 Company Secretary

SEASONS NOTICE SEASONS TEXTILES LIMITED

CIN - L74999DL1986PLC024058 Regd. Off: 26, Feroze Gandhi Road, Lower Ground Floor, Lajpat Nagar - III, New Delhi - 110024

Website: www.seasonsworld.com Phone No. 0120-4690000, Fax: 0120-4351485 Notice is hereby given that, pursuant to the provision of Regulation 47(1)(a) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015), a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Monday the 29" June, 2020 inter-alia to consider and approve the Audited Financial

Results of the Company for the Quarter and

Place: New Delhi

year ended on 31" March, 2020

(Kavita) Company Secretary Date: 23.06.2020

कोटिया एंटरप्राइजेज लिमिटेड CIN: L74110DL1980PLC010678

पंजी. कार्या.: 905, न्यू दिल्ली हाउस, 27, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली- 110001 फोन:- 91-11 -40045955 ईमेलः compliance@kotiaenterprises.com वेबसाइटः www.kotiaenterprises.com

बोर्ड बैठक की सूचना

गारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीयन अनिवार्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमावली, 2015 के विनियम 29 के अनुसरण में, एतद्द्वारा सुचित किया जाता है कि, मैसर्स कोटिया एंटरप्राइजेज लिमिटेंड के निदेशक मंडल की बैठक मंगलवार, 30 जून, 2020 को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाएगी जिसमें 31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए स्टैंडजलोन अंकेंद्रित वित्तीय परिणामों पर विवार तथा अनुमोदन करना है।

रोबी (आंतरिक व्यापार का निषेध) विनियम, 2015. के अनुसरण में, कंपनी की प्रतिभृतियों में व्यापार के लिए, आंतरिक द्वारा कंपनी की प्रतिभृतियों से निपटने के लिए ट्रेडिंग विन्डों 24 जून, 2020 से प्रभावी रूप से बंद कर दिया गया है और 02 जुलाई, 2020 तक

कते कोटिया एंटसाइजेज तिमिटेड हस्ता./-वंकित अग्रवाल प्रबंध निदेशक DIN: 05254327

प्रपत्र सं. आइएनसी-26

केन्द्रीय सरकार प्रादेशिक निदेशक के समक्ष उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (6) के खंड (अ) के मामले में

पाईनाथ सेल्स एण्ड सर्विसिज प्राइवेट लिमिटेड जिसका रजिस्टीकत कार्यालय : 341-ई, जी.एफ आनंद मार्ग, ईस्ट बाबरपूर, शाहदरा, इस्ट दिल्ली ढीएल 110032 इन इंडिया में स्थित है

आम जनता को यह नोटिस दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का 'रजिस्ट्रीकृत कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से 'उत्तर प्रदेश राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए तारीख 25 मई, 2020 को आयोजित असाधारण अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संघम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई

कंपनी के रजिस्टीकृत कार्यालय के प्रस्तावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003 पते पर पंजीकृत डाक दवारा भेज सकता है या सुपूर्व कर सकते हैं और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके

उनके लिए और उनकी और से साईनाथ सेल्स एण्ड सर्विसिज प्राइवेट लिमिटेड

तिथि : 25/05/2020 मनीष मुद्दगल निदेशक स्थान : दिल्ली बीआईएन : 06365463

[Pursuant to rule 30 the Companies (Incorporation) Rules, 2014] Advertisement to be published in the newspaper for change of registered office of the company from one state to another

Form No. INC-26

Before the Central Government Northern Region, (Regional Director) B-2 Wing, 2nd Floor, Deendayal Antyodaya Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003

In the matter of sub-section (4) of Section 13 of Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014
AND
In the matter of AVENAIRE ACADEMY PRIVATE LIMITED having its registered office at J-120 Kirti Nagar New Delhi-110015, Petitioner

Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Central Government under section 13 of the Companies Act, under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra ordinary general meeting held on 08-06-2020 to enable the company to change its Registered Office from "State of Delhi" to "State of Haryana".

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director at the address B-2 Wing, 2nd Floor, Deendayal Antyodaya Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003 within fourteen days of the date of publication of this notice with a copy to the applicant company with a

copy to the applicant company with a copy of the applicant company at its registered office at the address mentioned below: For and on behalf of the Applicant Dinker Pandey

पेट्रोल 20 पैसे व डीजल 55 पैसे लीटर और बढ़ा

नई दिल्ली, 23 जून (भाषा)।

पेटोल-डीजल के दाम में वृद्धि का सिलसिला मंगलवार को लगातार 17वें दिन भी जारी रहा। पेट्रोल का दाम मंगलवार को 20 पैसे और डीजल का दाम 55 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिया गया। इस दौरान कुल मिलाकर पेट्रोल का दाम 8.50 रुपए और डीजल का दाम 10.01 रुपए प्रति लीटर बढ़ चुका है।

तेल विपणन कंपनियों की

कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय एक राज्य से

दूसरे राज्य में अंतरित करने के लिए समाधार पत्र

में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन

मूल्य अधिसूचना के मुताबिक दिल्ली में पेट्रोल का दाम 79.56 रुपए से बढकर 79.76 रुपए प्रति लीटर और डीजल का दाम 55 पैसे प्रति लीटर बढकर 79.40 रुपए प्रति लीटर पर पहंच गया।

तेल कंपनियों ने 7 जन से पेट्रोल-डीजल के दाम में दैनिक संशोधन शुरू किया। उसके बाद से पिछले 17 दिन से इनके दाम लगातार बढ़ रहे हैं। उससे पहले लगातार 82 दिन तक दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया।

कंपनी (निगमन) नियम् २०१४ के नियम ३० के अनुसरण में HINDUSTAN ADHESIVES LIMITED Registered Office: B-2/8 SAFDARJUNG ENCLAVE NEW DELHI -110029

केन्द्रीय सरकार से पहले उत्तरी क्षेत्र, Notice कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 13 की उपवास Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 को उपनियम (5) को शांड (31) को मामले में लेडक्कंप आउटसोर्स मार्केटिंग प्राक्नवेट शिमिटेड जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यातय - शॉप न

१३६२ / टी29, गाउंड पतोर मंडी एक्सटेशन, नरेल विल्ली नॉर्थ वेस्ट डीएल 110040 में स्थित है आम जनता को यह मोटिस दी जाती है कि यह कंपनी

कंन्द्रीय सरकार के समझ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का 'रजिस्ट्रीकृत कार्यासब राष्ट्रीय राजधानी क्षंत्र दिल्ली से 'हरियाणा राज्य' में स्थानातरित करने के लिए वारीख 10 जून, 2020 को आयोजिव असावारण अधियेशन में पारित विशेष संकल्प को संदर्भ में कंपनी के संधम झापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई कपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित

स्थानातरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रशायित होता है तो यह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्रकप काडल वार एमसीए-21 पोर्टल

तिकायत वर्ज कर सकता है या एक त्रपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति पादेशिक निवेशक को इस सचना के प्रकाशन की तारीख से 14 विनों के भीतर बी-2 विग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 पर्त पर पजीवृत्रत डाक द्वारा मेज सकता है या सुपूर्व कर सकते है और इसकी पति आवेदक कंपनी को उनके उपरोक्त रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते पर भी गेजेगा। शॉप न 2382 / टी29, गाउंड फ्लोर मंडी

एक्सटेशन, नरेला विल्ली नॉर्थ वेस्ट डीएल 110040 उनके लिए और उनकी और ने लॅंडस्केप आउटमोर्स मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड

डीआईएन पता : भी / ओ, ई 42 चेस्टेंस हाईट डीएलएफ फैंस 5 गुरुगम 122009 एवजार CIN-L74899DL1988PLC031191

read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, 30" June, 2020, inter-alia, to consider and approve the Audited financial results of the Company for guarter ended on 31" March, 2020. The information contained in this notice is also available on the Company's website at www.baglagroup.com and the website of the Stock Exchange BSE Limited-www.bseindia.com.

M.S. Bagla Place: New Delhi Managing Director Date: 23.06.2020 DIN-01425646

For Hindustan Adhesives Limited

MEDICAMEN BIOTECH LTD. Regd. Office: 1506, Chiranjiv Tower, 43, Nehru Place, New Delhi - 110019 (CIN: L74899DL1993PLC056594) Website: www.medicamen.com Email id: cs@medicamen.com

NOTICE is hereby given pursuant to Regulation 29 & 47 of SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirement) Regulations, 2015, the Meeting of Board of Directors of Medicamen Biotech Limited will be held on Tuesday, the 30th June, 2020, at 1506, Chiranjiv Tower, 43 Nehru Place New Delhi-110019, inter alia to consider, approve and take in record the Audited Financial Results for the year & quarter ending on 31st March, 2020 and to recommend Final Dividend on Equity Shares of the Company for the Financial Year 2019-20.

> By order of the Board For Medicamen Biotech Limited Parul Choudhary

Place: New Delhi Dated: 23.06.2020 Company Secretary जीआरएम ओवरसीज लिमिटेड

सीआईएनः L74899DL1995PLC064007 पंजीकृत कार्यालयः 128, प्रथम तल, शिवा मार्केट पीतमपुरा उत्तरी दिल्ली-110034 वेबसाइटः www.grmrice.com | ई-मेल आईडी: grmrice1@gmail.com दूरभाष नं.: 011-47330330 | फैक्स नं.: 011-0180-2653673 सार्वजनिक सचना भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 29(1)

के साथ पठित विनियम 47 के अनुसार एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित प्रकार्यों। पर परिचर्चा करने के लिए कम्पनी के निदेशक मण्डल की बैठक सोमवार, 29 जून, 2020 को 04:00 बजे अप. आयोजित की जानी निर्धारित की गयी है:

1. 31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष हेतु कम्पनी के लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों (समेकित तथा स्टैण्डअलोन) पर विचार तथा अनुमोदन।

2. वित्त वर्ष 2019-20 हेतु लाभांश पर विचार तथा अनुमोदन।

3. कोई अन्य प्रकार्य, यदि कोई हो, पर विचार।

पुनः, दिनांक 31 मार्च, 2020 को ट्रेडिंग विंडो बन्द करने की अपनी सूचना की निरन्तरता में तथा सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग निषेध) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी की प्रतिभृतियों में संव्यवहार करने हेतु ट्रेडिंग विंडो

समस्त निर्दिष्ट व्यक्तियों तथा उनके घनिष्ठ सम्बन्धियों हेतु 31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष हेतु वित्तीय परिणामों की घोषणा के 48 घण्टे पश्चात तक बन्द रहेगी। कथित सूचना कम्पनी की वेबसाइट http://www.grmrice.com से एक्सेस की जा सकती है तथा साथ ही स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट http://www.bseindia.com से भी एक्सेस की जा सकती है।

बोर्ड के आदेशानुसार कृते जीआरएम ओवरसीज लिमिटेड

दिनांक: 23 जून, 202**0**

(कम्पनी सचिव) बंक

बलवीर सिंह

एलसीआरडी डिविजन / नई दिल्ली फडरल दि फैंडरल टावर्स अपर ग्राउंड फ्लोर 2/2, वेस्ट पटेल नगर नई दिल्ली-110008 आपका सम्पूर्ण बैंकिंग भागीदार फोन नं.: 011-40733980,40733978 पंजी. कार्यालयः अलवाये, केरल ई-मेलः ndllcrd@federalbank.co.in

स्थानः नई दिल्ली

अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन नियमावली, 2002 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री सुचना

एतदुद्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों तथा गारन्टरों को सुचित किया जाता है कि फेडरल बैंक लिमि. (प्रतिभत क्रेडीटर) के पास गिरवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका फेडरल बैंक लि. (प्रतिभृत क्रेडीटर) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा 27.8.2019 को भौतिक कब्जा किया गया है, की 1. मै. डीएस इम्पेक्स, पार्टनरशिप फर्म जिसका कार्यालयः डी-55-56, 1ला एवं 2रा तल, लाजपत नगर-IV, दिल्ली-110024 में है, प्रतिनिधित्व द्वारा उसके पार्टनर्स क श्री संदीप गोस्वामी, पुत्र श्री राम किशन, ख) श्रीमती दिव्या गोस्वामी, पत्नी श्री संदीप गोस्वामी, 2. श्री संदीप गोस्वामी, पुत्र श्री राम किशन, निवासीः मकान सं. बी-4/158, ब्लॉक बी 4, यमुना विहार, दिल्ली-110053, साथ ही: संपत्ति सं. 21, प्रथम तल, फ्रान्ट साइड पोर्शन, रिंग रोड, लाजपत नगर-4, दिल्ली-110024, साथ ही: बी-201, मधु कुंज, गली सुभाष, मोहल्ला उत्तरी घोण्डा, दिल्ली-110053, साथ ही: सी-3/343, यमुना विहार, दिल्ली। 3. श्रीमती दिव्या गोस्वामी, पत्नी श्री संदीप गोस्वामी निवासीः मकान सं. बी-4/158, ब्लॉक बी 4, यमुना विहार, दिल्ली-110053, साथ ही: संपत्ति सं. 21, प्रथम तल, फ्रान्ट साइड पोर्शन, रिंग रोड, लाजपत नगर-4. दिल्ली-110024, साथ ही: बी-201, मधु कुंज, गली सुभाष, मोहल्ला उत्तरी घोण्डा, दिल्ली-110053, साथ ही: सी-3/343, यमुना विहार, दिल्ली। साथ ही: जे-4/25 एवं जे-4/28, ओल्ड डबल स्टोरी, लाजपत नगर-IV, नई दिल्ली से बिक्री की उपरोक्त तिथि को द फेडरल बैंक लि.

(प्रतिभृत क्रेडीटर के बकाये) रु. 3,85,89,474/- (रुपए तीन करोड़ पचासी लाख नवासी हजार चार सौ चौहत्तर) मात्र की वसुली के लिए 16.7.2020 को ''जैसा है जहां है'' तथा ''जो भी वहां है'' आधार पर बिक्री की जाएगी। आरक्षित मल्यः 3000000/- (रुपए तीन करोड मात्र) तथा धरोहर राशि भुगतान रु. 30,00,000/- (रुपए तीन लाख मात्र) है जो आरक्षित मूल्य का 10% है। आरक्षित मूल्य से नीचे बोली तत्काल निरस्त कर दी जाएगी। इस प्रकार, जमा की गई बोली आरक्षित मुल्य से अधिक होनी चाहिए। सभी सुधारों के साथ रिंग रोड, लाजपत नगर-IV, नई दिल्ली-110024 में स्थित भू खंड माप 725

वर्ग यार्ड्स जिसका कवर्ड एरिया माप 162.57 वर्ग मी. है, के आधे फ्रान्ट भाग में निर्मित सम्पत्ति सं 21, एनएच III तथा IV, पार्ट 1 के प्रथम तल, फ्रान्ट साइड पोर्शन पर सम्पत्ति का सभी भाग तथ हिस्सा। चौहद्दीः पर्वः प्लॉट नं. बी-22, पश्चिमः प्लॉट नं. बी-22, उत्तरः रिंग रोड तथा दक्षिणः भूमि सम्पत्ति की बिक्री फेडरल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी की निगरानी में बैंक के स्वीकृत सेव

प्रदाता M/s 4 Closure द्वारा की जाएगी। ई-नीलामी बोली प्रपत्र, उद्घोषणा, ऑनलाइन ई

नीलामी के नियमों एवं शर्तों से शामिल ई-नीलामी निविदा दस्तावेज वेबसाईटः

https://www.bankauctions.in पर उपलब्ध है। संभावित बोलीदाता M/s 4 Closure हैदराबाद, हेल्पलाइन नं. एवं ईमेल आईडी: 0814200062/ 65/ 66 एवं ई-मेल info@bankauctions.in तथा विकास कुमार- 8142000809, 0807627383 एवं ईमेल: vikas@bankauctions.in से ई-नीलामी पर ऑन लाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। निविदा दस्तावेज में दी गई निर्धारित प्रारूप में बोलियाँ पोर्टल https://www.bankauctions.in. के माध्यम से 'ऑन लाइन' जमा की जायेगी। अन्य रूप में जमा की गई बोलियों की योग्यता के लिये विचार नहीं किया जायेगा। ईएमडी का भुगतान बैंक खाता 21470051030003, आईएफएससी: FDRL00024147 में डिमांड ड्राफ्ट, ईएफटी/एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा किया जायेगा। भुगतान की जाने वाली ईएमडी आरक्षित

मुल्य का 20% है जो निविदा स्वीकार नहीं होने की स्थिति में वापस लौटा दी जायेगी। ईएमडी के साथ बोली जमा करने की अंतिम तिथि 15.07.2020 के 5.00 बजे अप. है। उक्त अवधि के बाद जमा की गई बोली विचारणीय नहीं होगी। सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि, बिक्री को निर्देशित करने वाले नियमों एवं शर्तों के विवरण 14.07.2020 तक दूसरे तथा चौथे शनिवार को छोड़कर किसी भी कार्य दिवस को 12.00 बजे पूर्वा. तथा 4.00 बजे अप. के बीच 64, कत्रा बरियान, चांदनी चौक, नई दिल्ली-110015 में तथा एनडीएल/एलसीआरडी डिवीजन, 2/2, फेडरल टावर्स, ऊपरी भृतल, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008 से प्राप्त की जा सकती है। सम्पत्ति की नीलामी से संबंधित विस्तृत नियम एवं शर्तें 64, कत्रा बरियान, चांदनी चौक, नई दिल्ली-110015 में तथा एनडीएल/एलसीआरडी डिवीजन, 2/2, फेडरल टावर्स, ऊपरी भृतल, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008 में प्रदर्शित है। इच्छुक व्यक्ति शाखा प्रमुख, चांदनी चौक शाखा, फे-डरल बैंक से मो. नं. 9560114069, 9818646777 एवं कार्यालय नं. 011-40733980, 40733978, 011–49847491 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया निम्न वेबसाईटों में दी गई लिंक देखें: 1. https://www.bankauctions.in

2. https://www.federalbank.co.in

द फेडरल बैंक लि. के लिये (सरफैसी अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी)

तिथि: 23.06.2020 स्थानः नई दिल्ली

> कृते फेडरल बैंक लि. तिथिः 23.06.2020 (सरफेसी अधिनियम के तहत प्राधिकृत अधिकारी स्थानः नई दिल्ली

चीन सहित चार देशों से एल्यूमीनियम फॉयल की डंपिंग जांच शुरू

नई दिल्ली, 23 जून (भाषा)।

भारत ने एल्यूमीनियम डंपिंग के बारे में घरेलू विनिर्माताओं की शिकायत मिलने के बाद चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाइलैंड से आने वाले एल्युमीनियम फॉयल की कथित डंपिंग के खिलाफ जांच शुरू की है।

हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, रविराज फॉयल्स और जिंदल इंडिया ने वाणिज्य मंत्रालय की जांच इकाई व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) के समक्ष आवेदन कर इन देशों से आने वाले एल्युमीनियम फॉयल के खिलाफ डंपिंग जांच का आग्रह किया। कंपनियों ने इन चार देशों से भारत में आयात किए जाने वाले '80 माइक्रोन और उससे कम दर्जे के एल्युमीनियम फॉयल' के आयात की डंपिंग किए जाने की शिकायत की है।

कार्ड्स केबल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः १४, प्रथम तल, शम्भू दयाल बाग मार्ग,

निकट ओखला इण्डस्ट्रियल एरिया फेज-III, ओल्ड ईश्वर नगर, नई दिल्ली-110020, दूरभाष: 011-40551200

* फैक्सः 011-40551281, * वेबसाइटः www.cordscable.com

ईमेलः ccil@cordscable.com * सीआईएनः L74999DL1991PLC046092

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 47 के साथ पिटत विनियम 29 के अनुसार एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अन्य बातों के साथ-साथ 31 मार्च, 2020 को समाप्त चौथी तिमाही/ वित्त वर्ष हेतु लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन तथा नकदी प्रवाह विवरण सहित लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार करने तथा अनुमोदन के लिए कम्पनी के निदेशक मण्डल की 192वीं बैठक शनिवार, 27 जून, 2020 को आयोजित की जायेगी।

उपर्युक्त सुचना कम्पनी की वेबसाइट (www.cordscable.com) तथा स्टॉक एक्सचेंजों, जह कम्पनी के शेयर सुचीबद्ध हैं, की वेबसाइटों (www.bseindia.com) तथ (www.nseindia.com) पर भी उपलब्ध हैं।

यह पुनः सूचित किया जाता है कि कम्पनी की प्रतिभृतियों में व्यापार करने हेतु ट्रेडिंग विंडो पहले से ही 01 अप्रैल, 2020 से बन्द कर दी गयी है और निदेशकों, निर्दिष्ट कर्मचारियों, इनसाइडरों तथा उनके घनिष्ठ सम्बन्धियों हेतु कम्पनी की इनसाइडर ट्रेडिंग संहिता के अनुसार 27 जून, 2020 को निदेशक मण्डल की बैठक के परिणाम स्टॉक एक्सचेंज के पास जमा करने के 48 घण्टे के उपरान्त पुनः खोल

निदेशक मण्डल के आदेशानुसा कृते कॉई्स केबल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड

स्थानः नई दिल्ली तिथि: 23 जून, 2020 गरिमा पन्त

कार्डियक कैथेटराइजेशन लेब सिस्टम की सार्वजनिक नीलामी की सूचना 2302/एमएस/नॉन ईएक्सपी./2020-21 नीलामी आमन्त्रण सुचना

चिकित्सा उपकरणों की नीलामी में अनुभव रखने वाले संविदाकारों से मुहरबन्द संविदाएँ आमन्त्रित की जाती हैं। यह नीलाम आर्मी अस्पताल (रिसर्च एण्ड रेफरल) दिल्ली कैंट-110010 से सम्बन्धित चिकित्सकीय वस्तुओं की है जो ''जहाँ है जैसें है'' आधार पर होगी।

गैर-कार्यरत एनआईवी/22/डीजी/19388 सिंगल प्लेन फ्लैट पैनल डिजिटल कैथेटराइजेशन लेब सिस्टम आर्टिस जी फ्लोर (एस.एन. 135380) संविदा जमा करने की तिथि एवं समय 16 जलाई 2020 को 1400 बजे तक जीआई सर्जरी विभाग, भतल, आर्मी अस्पताल (आरएण्डआर) दिल्ली धरोहर राशि (ईएमडी)

कार्डियक कैथेटराइजेशन लेब सिस्टम'' अंकित होना चाहिए और महरबन्द लिफाफे में कार्यालय डीजीएलपी पोक्योरमें सेल, सीटीवीएस बिल्डिंग में जमा करनी है जिसमें असफल होने पर संविदा अस्वीकार कर दी जायेगी। अनसचित उपकरण खरीदने के लिए नीलामी में भाग लेने के इच्छक व्यक्ति ''कमांडेंट आर्मी हॉस्पिटल (आरएण्डआर दिल्ली कैंट'' के पक्ष में नकद/आहरित डीडी के माध्यम से रु. 20,000.00 की धरोहर राशि जमा करेंगे और इसे नीलार्म

नीलामी के नियम एवं शर्तें

संविदा कमांडेंट, आर्मी अस्पताल (आरएण्डआर) दिल्ली कैंट-110010 को सम्बोधित तथा उस पर ''ऑक्शन ऑप

प्रारम्भ होने के पूर्व अधिकृत प्राधिकारी के पास जमा करेंगे। जिन व्यक्तियों ने उपर्युक्त के अनुसार ईएमडी जमा की होर केवल वे ही नीलामी में भाग लेने के पात्र होंगे। उपकरण की बिक्री ''जहाँ है जैसे है'' आधार पर की उन्हें की जायेगी जो अधिकतम मूल्य का प्रस्ताव करेंगे। किन्तु आम

हॉस्पिटल (आरएण्डआर) दिल्ली कैंट 110010 को बिना कोई कारण बताये संविदा को स्वीकार न करने अथवा बिक्र को निरस्त करने का अधिकार है। सफल संविदाकार/क्रेता को अधिकत प्राधिकारी के पास स्वयं नीलामी की तिथि से 4 घण्टे के भीतर संविदा राशि का 25% तथा शेष राशि 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगी यदि स्वयं नीलामी की तिथि से 48 घण्टों के भीतर संविदा राशि का 25% नहीं जमा किया जाता है अथवा 15 दिनों

भीतर शेष राशि नहीं अदा की जाती है अथवा यदि सफल संविदाकार बिक्री के नियमों, समय का अनुपालन करने असफल रहता है, अथवा किसी भी रूप में चुक करता है तो जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी और बैंक को बिन कोई सुचना दिये सम्पत्ति की बिक्री करने की स्वतन्त्रता होगी। . बियांड इकोनॉमिकल रिपेयर (बीईआर) हेतु संविदा में इच्छुक वेंडर/पक्ष उपकरणों तथा मदों का निरीक्षण आर्मी हॉस्पिटल (आरएण्डआर) दिल्ली कैंट 110010 के सम्बद्ध प्राधिकरण (लेफ्टिनेंट कर्नल विवेक गुलेरिया सम्पर्क नं. 7831078560

से पूर्व अनुमित प्राप्त करने के पश्चात कार्यालयी घण्टों के दौरान 0900 बजे से 1600 बजे के बीच कर सकते हैं औ बीईआर उपकरण/मदों की सूची प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए राशि की संविदा की जायेगी। संविदाकार अपने द्वारा कोट की गयी संविदा की राशि अंकों तथा शब्दों में कोट करेंगे, संशोधन/ओवरराइटिंग की स्थि

भाग लेने की अनुमित नहीं दी जायेगी और उसकी संविदा नहीं खोली जायेगी।

. करों/लेवी, यदि कोई हो, से सम्बन्धित समस्त उत्तरदायित्व केवल सफल संविदाकार द्वारा वहन किये जायेंगे। चयनित संविदाकार को नीलामी की मदों को पूर्ण संविदा राशि जमा करने के उपरान्त ठीक अगले दिन उठाना होगा औ साइट को पन्द्रह दिनों के भीतर खाली करना होगा जिसमें असफल रहने पर ईएमडी जब्त कर ली जायेगी। IO. संविदा जमा करने वाले संविदाकारों को माना जायेगा कि उन्होंने सभी नियमों और शर्तों को स्वीकार कर लिया है। संविद

स्वीकार करने या अस्वीकार करने के सम्बन्ध में किसी प्रकार की मौखिक या लिखित पछताछ पर विचार नहीं किय . मदों को उठाने के दौरान सफल संविदाकार की चूक के कारण यदि ऑमी हॉस्पिटल (आरएण्डआर) की सम्पत्ति के

कोई क्षति पहुँचती है तो उसे सम्बद्ध संविदाकार से वसूल किया जायेगा और कमांडेंट, आर्मी हॉस्पिटल (आरएण्डआर का निर्णय संविदाकार के लिए बाध्यकारी होगा। 2. संविदाकार संविदा करने से पूर्व नीलामी के नियमों एवं शर्तों को पढ़ेंगे और समझेंगे।

3. उपकरण की बिक्री के सम्बन्ध में कमांडेंट ऑर्मी हॉस्पिटल (आरएण्डआर) दिल्ली कैंट 110010 का निर्णय अन्तिम बाध्यकारी तथा प्रश्नचिह्न रहित होगा और उसके पास बिना कोई कारण बताये बिक्री को निरस्त करने या आस्थिग

अधिकृत प्राधिकार

दिनांकः 24 जून, 2020

आर्मी हॉस्पिटल (आरएण्डआर

फार्म जी

अभिरुचि की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण {दिवाला तथा दिवालिया (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिये दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 36ए (1) के अंतर्गत}

हरियाणा टेलीकॉम लिमिटेड वह पाधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट कम्पनी रजिस्टार- चंडीगढ मध्य मार्ग, चंडीगढ़- 160009, भारत, फैक्ट्री का पताः ग्राम खेरी साध, जिला रोहतक, राज्य हरियाणा, पि अभिरुचि की अभिव्यक्ति के आमंत्रण की तिथि 24.06.2020 संहिता की धारा 25(2) (एच) के अंतर्गत क्रेडीटरों की कमिटी की 2री बैठक में दिवाला दिवालिया संहिता धारा 25 (2) (एच) के अंतर्गत कोई योग्यता मानदंड निर्धारित नर्ह प्रस्ताव आवेदकों की पात्रता उपलब्ध है: की गई तथा कोई भी इच्छक बोलीदाता लागू होने वाले कानून की शत 9. धारा 29ए के अंतर्गत लागू होने वाले अयोग्यता आईबीबीआई की वेबसाईट (https://www.ibbi.gov.in का मानक उपलब्ध है। legal- framework/ act) पर उपलब्ध। कृपया दिवाला तथ दिवालिया संहिता, 2016 का नवीनतम वर्शन देखें/ आगे स्पष्टीकरण cirp.htl@gmail.com पर ईमेल भेजकर प्राप्त की जा सकती

अभिरुचि की अभिव्यक्ति प्राप्ति की अंतिम तिथि 09.07.2020 संभावित प्रस्ताव आवेदकों की अस्थाई सची 19.07.2020 जारी होने की तिथि अस्थाई सची के प्रति आपत्ति जमा करने की 24.07.2020

13. संभावित प्रस्ताव आवेदकों की अंतिम सूची जारी 03.08.2020 होने की तिथि 14. संभावित प्रस्ताव आवेदकों को प्रस्ताव योजना के 24.07.2020 लिये सूचना मेमोरैण्डम, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा अनरोध जारी होने की तिथि

15. प्रस्ताव योजना, मुल्यांकन मैट्रिक्स, सुचन योग्य संभावित प्रस्ताव आवेदकों के साथ इलेक्ट्रॉनिक पद्धति मेमोरैण्डम तथा अधिक जानकारी प्राप्त करने का शेयर की जायेगी।

16. प्रस्ताव योजना जमा करने की अंतिम तिथि प्रस्तावकर्मी के पास प्रस्ताव योजना जमा करने क्लॉज नं. 1.7.9 के अनुसार प्रस्ताव योजना कॉलम नं. 14 अनुसार जारी की जायेगी।

18. स्वीकृति के लिये निर्णायक प्राधिकरण के पास 27.09.2020 प्रस्ताव जमा करने की अनुमानित तिथि 19. प्रस्ताव कर्मी का नाम तथा पंजीकरण संख्या

IBBI/IPA-002/IP-N00138/2017-18/10397 20. बोर्ड में यथा-पंजीकृत प्रस्ताव कर्मी का नाम, पताः युनिट नं. 110, प्रथम तल, जेएमडी पैसिफिक स्क्वॉयर, सेक्ट पता तथा ई-मेल 15, पार्ट II, गुरुग्राम, हरियाणा- 122001 ई-मेलः goelsanyam@gmail.com

21. प्रस्ताव कर्मी के साथ पत्राचार के लिये प्रयोग पताः यूनिट नं. 110, प्रथम तल, जेएमडी पैसिफिक स्क्वॉयर, सेक्टर करने के लिये पता तथा ईमेल 15, पार्ट II, गुरुग्राम, हरियाणा- 122001 ई-मेलः cirp.htl@gmail.com 22. विस्तृत विवरण उपलब्ध हैं विस्तृत विवरण cirp.htl@gmail.com पर ईमेल भेजकर प्राप्त की जा सकती है। विशेष रूप से विस्तृत ईओआइ

cirp.htl@gmail.com पर ईमेल भेजकर प्रस्ताव कर्मी से प्राप्त की जा सकती है। अभिरुचि की अभिव्यक्ति को भारत दिवाला तथ दिवालिया संहिता (कॉर्पोरेट व्यक्तियो के लिये दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) के विनियमन 36 ए (7) के अनुरूप जमा की जानी चाहिये 23. फार्म जी के प्रकाशन की तिथि

> प्रस्तावकर्मी का हस्ताक्षर/ पंजी. सं.: IBBI/IPA-002/IP-N00138/2017-18/10397 यूनिट नं. 110, प्रथम तल, जेएमडी पैसिफिक स्क्वॉयर. सेक्टर 15, पार्ट II, गुरुग्राम, हरियाणा- 122001

हरियाणा टेलीकॉम लिमिटेड के लिये

तिथि: 24.06.2020

स्थानः गुरुग्राम

www.readwhere.com

शेयर बाजारों में मंगलवार को लगातार

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध

हटने के तौरतरीकों को अमल में लाएंगे। शेयर बाजार के पास उपलब्ध अस्थायी

वैश्विक स्तर पर चीन में शंघाई, हांगकांग, दक्षिण कोरिया में सोल और जापान में टोक्यो बाजार बढ़त के साथ बंद हुए। यूरोप के प्रमुख बाजारों में शुरुआती कारोबार में अच्छी बढ़त दर्ज की गई। इस बीच, घरेलु बाजार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 37 पैसे मजबृत होकर 75.66 पर पहुंच गया। वहीं अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड का वायदा

आत्मनिर्भर भारत अभियान

जेम मंच पर बिक्री के लिए 'उत्पाद का मुल देश' अंकित करना अनिवार्य

Place: New Delhi

Date: 23/06/2020

Place: New Delhi

श्री संगरतन

दिनांक 20.06.2020,

IM + CAPITALS LIMITED

CIN: L74140DL1991PLC340407

Registered Office: 817, Antriksh Bhawan

K.G Marg, New Delhi-110001.

Email: imcapitalslimited@gmail.com

Website: www.imcapitals.com

NOTICE

Pursuant to Clause 29 of SEBI (Listing

Obligations and Disclosure Requirements)

Regulations 2015, Notice is hereby given

that the Meeting of the Board of Directors of

the Company is scheduled to be held on

Monday, 29th June 2020, interalia, to

consider and approve Audited Financial

Statements (Standalone & Consolidated)

for the year ended 31st March 2020 & to

take on record the Financial results for the

fourth guarter/year ended 31st March 2020

Further pursuant to SEBI (Prohibition of

Insider Trading) Regulations, 2015 and

Company's "Code of Conduct to Regulate,

Monitor and Report, Trading by Insiders",

the trading window for the dealing in

securities of the Company shall remain

closed till 48 hours of the declaration/

For IM+ Capitals Limited

publication of results

Place: New Delhi

at the Registered office of the Company.

नई दिल्ली, 23 जून (भाषा)। आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढाते हए सरकारी खरीद के ऑनलाइन पोर्टल 'गवर्नमेंट ई– मार्केटप्लेस (जेम) ने विक्रेताओं के लिए उत्पादों पर 'उत्पादन के मूल देश' का नाम अंकित करना अनिवार्य कर दिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। वहीं 'मेक इन इंडिया' पहल को आगे बढाने के लिए उसने अपने

के उल्लेख का प्रावधान भी किया है। पोर्टल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तल्लीन कहा कि अपनी शुरुआत से ही जेम 'मेक इन इंडिया कमार ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए जेम ने एक अहम कदम उठाया है। उसने विक्रेताओं के लिए नए उत्पाद पंजीकृत करने पर उसके 'उत्पादन के देश' (कंटी ऑफ ओरिजिन) का अंकित करना अनिवार्य कर दिया है। उन्होंने कहा कि जो विक्रेता इस नियम में

मंच पर उत्पादों में 'स्थानीय मुल्यवर्द्धन' के योगदान

को आगे बढाने की दिशा में काम कर रहा है। साथ ही देश के छोटे स्थानीय विक्रेताओं को सरकारी खरीद में प्रवेश करने की सुविधा दे

JAI MATA GLASS LIMITED Notice is hereby given that a Meeting of Board of Directors of the Company will be held at 4:00 PM on June, 30, 2020 at Head Office, 4 th Floor, Property No. 2, Khasra No. 619/4 & 619/7, Gopala Building, Opp. Tivoli Garden, Chattarpur, New Delhi-110074 amongst other business to consider and take on record the Audited Financial

Results of the Company for the Quarter and Year ended March, 31, 2020 Further pursuant to Regulation 47(2) os SEBI (Listing obligation Disclosure Requirements) Regulations, 2015, copy of notice and financial results shall be available on the Company website at www.jaimata glass.com and also at BSE website at www.bseindia.com. For Jai Mata Glass Limited

Date: 22.06.2020 **GENESIS FINANCE COMPANY LIMITED** Regd. Office: 4, MMTC/ STC, Market, Geentanjali, New Delhi- 110017

Tel No: 011-26691132, CIN: L65910DL1990PLC040705,

Email ID: gopalbishtgfcl@gmail.com, **Website**: www.genesisfinance.net

NOTICE Notice is hereby given, pursuant to the provisions of Regulation 29 and 47 of Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that a meeting of Board of Directors of the Genesis Finance Company Limited is scheduled to be held on **Tuesday**, 30thJune, 2020 interalia to consider, approve and take on record the Audited Financial Results for the guarter and year ended on 31st March, 2020 and the Annual Financial Statements for the year ended on 31st March, 2020.

open after 48 hours from the publication of Financial Results to the public. nformation in this regard is also available on website of the Company i.e http://genesisfinance.net.

੧ਓ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

Further, in accordance with the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, the

trading window for dealing in securities of the Company shall remain closed from 23rd June,

2020 for all the directors, officers and designated employees of the Company and would be For and on behalf of the Board of

NOTICE SEASONS FURNISHINGS

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

अंधल दिल्ली न, प्लॉट 2

मह विल्ली -110014

जर्जा सेवा ही जीवन - ध्येप है

बैंक 15 वर्ष की न्यनतम अवधि के लिए लीज

के आधार पर कारपेट एरिया 1200-1500 वर्ग

कीट, ग्राउंड क्लोर पर परिसर के लिए, दो बोली

प्रणाली (कुल किराए के भीतर ऑन-साइट

एटीएम की स्थापना सहित) के तहत क्षेत्र आराम

बाग, नई दिल्ली के लिए ऑफर आमंत्रित करता

है। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट

www.psbindia.com पर जाएं।

आंचलिक प्रबंधक

LIMITED CIN - L36101DL1990PLC039238 Lajpat Nagar - III, New Delhi: 110 024 Email: cs@seasonsfurnishings.com,

Phone No. 0120-4160126 Notice is hereby given that, pursuant to the Listing Obligations and Disclosure of the Board of Directors of the Company is June, 2020 inter-alia to consider and

31"March, 2020.

Regd. Off: 64, Ground Floor, Ring Road,

provision of Regulation 47(1)(a) of the SEBI Requirements) Regulations, 2015), a meeting scheduled to be held on Monday the 29" approve the Audited Financial Results of the Company for the Quarter and year ended on

बकाया राशि (रू. में)

₹. 34,00,409.72

देनांक 31.12.2019 तक

भविष्य का ब्याज, खर्चे

और अन्य प्रमार

इत्यादि सहित

Registrar

Website: www.seasonsfurnishings.com

Place: New Delhi (Mandeep Singh Wadhwa)

Neeti Alwani (Company Secretary) Date: 23.06.2020 Managing Director

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम) शाखाः चावड़ी बाजार, हौज कार्जी, दिल्ली–110006 जहाँ सेवा ही जीवन - ध्येय है कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेत्) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्गठन एंव प्रतिभृति हित प्रवर्तन ऐक्ट 2002 (2002 का 54) के तहत पंजाब एण्ड सिंध

जारी किया था, जिसमें उक्त सुचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भगतान करने को कहा गया था। उधारकर्ताओं / गारंटरों उक्त राशि का भगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतदहारा उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अद्योहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 (4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तगर्त निम्नलिखित दिनांक को ले लिया है।

उधारकर्ताओं / गारंटरों को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त सम्पत्ति के साथ

बैंक का प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सुचित किया जाता है कि प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13

(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदारों / गारंटरों को निम्नलिखित दिनांकों को डिमांड नोटिस

Genesis Finance Company Limited

Chander Mohan Marwah

लेन-देन न करने के लिये सावधान किया जाता है तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन-देन पंजाब एण्ड सिंध बैंक के अधीन होगा। उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेत् उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है। कर्जदार और प्रभारित / बंधक सम्पत्ति

स्थान : नई दिल्ली

गारंटर का नाम का विवरण सम्पत्ति पर मालिकाना हक श्री सागर श्रीवास्तव और श्री प्रवीन राज कर्जदार : श्री सागर सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि सम्पत्ति नं. 4-1823, प्लॉट नं. श्रीवास्तव सह-कर्जदारः 54 पर निर्मित, भूमि क्षेत्रफल 50 वर्ग गज अर्थात 41.80 वर्ग मी., खसरा नं. 2388-1317-638 में से जो भी हो और अंतिम मंजिला तक निर्माण के श्री प्रवीन राज अधिकार के साथ, गाँव चन्द्रावली बनाम शाहदरा आबादी गली नं. 4, रामा गारंटर

ब्लॉक, भोला नाथ नगर इलाका शाहदरा, दिल्ली–110032 में स्थित

प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब एण्ड सिंघ बैंक नियुक्तियां

कब्जा सचना की तारीख

04-01-2020

20-06-2020

INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY KANPUR

IIT Kanpur is an Institute of national importance declared as such under the Institutes of Technology Act, 1961, to provide for education and research in various branches of engineering, technology, science and arts. The Institute invites online applications for various posts, from eligible Indian nationals for appointment on regular basis. For detailed advertisement, please visit the Institute's

Interested candidates can apply through ONLINE mode only latest by 05:00 PM of July 12, 2020.

website www.iitk.ac.in/infocell/recruitment.

Shikha Mehra Chawla Date: 23.06.2020 Company Secretary

Advt.No.1/2020